

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SAN FRANCISCO

प्रायोगिक प्रतिभागियों के

अधिकारों का बिल

नीचे दिए गए अधिकार हर उस व्यक्ति के अधिकार हैं जिसे किसी अनुसंधान अध्ययन में भाग लेने के लिए कहा गया है। एक प्रायोगिक प्रतिभागी के रूप में आपके निम्नलिखित अधिकार हैं:

- 1) यह बताए जाने का कि अध्ययन में क्या पता लगाने की कोशिश हो रही है,
- 2) यह बताए जाने का कि आपके साथ क्या होगा और क्या कोई प्रक्रियाएं, दवाएं, या उपकरण उससे अलग है जिसका उपयोग मानक उपचार में किया जाता है,
- 3) अनुसंधान प्रयोजनों के लिए आपके साथ होने वाली चीजों के अक्सर और/या महत्वपूर्ण जोखिमों, दुष्प्रभावों, या असुविधाओं के बारे में बताए जाने का,
- 4) यह बताए जाने का कि क्या आप सहभागिता से किसी लाभ की आशा कर सकते/सकती हैं, और, यदि हां, तो वह लाभ क्या हो सकता है,
- 5) उन अन्य विकल्पों के बारे में बताए जाने का जो आपके पास हैं और इस अध्ययन में शामिल होने से ज्यादा बेहतर या बदतर कैसे हो सकते हैं,
- 6) अध्ययन में शामिल होने से पहले और अध्ययन की अवधि के दौरान, दोनों के संबंध में कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति दिए जाने का,
- 7) यह बताए जाने का कि यदि कोई जटिलता उत्पन्न होती है तो किस प्रकार के चिकित्सीय उपचार उपलब्ध हैं,
- 8) भाग लेने से कतई इंकार करने या अध्ययन प्रारंभ हो जाने के बाद सहभागिता के बारे में अपना विचार बदलने का। यह निर्णय आपके उस देखभाल को प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जो आपको मिलेगी यदि आप अध्ययन में न होते,
- 9) हस्ताक्षरित और दिनांकित सहमति प्रपत्र की एक प्रति प्राप्त करने का,
- 10) क्या आप अध्ययन में शामिल होने के लिए सहमत हैं या नहीं इस पर विचार करते समय दबाव मुक्त होने का।

आपका अध्ययन चिकित्सक आपको बताएगा कि क्या अनुसंधान अध्ययन खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा विनियमित है। यदि यह अध्ययन, संघीय खाद्य, औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम (एफडीसी एंड सी एक्ट) के अधीन, एफडीए विनियमित है, तो एफडीए अध्ययन में आपकी सहभागिता से संबंधित सभी रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकता है और उनकी प्रतिलिपि बना सकता है।

यदि आपके अन्य प्रश्न हैं तो आपको अनुसंधानकर्ता या अनुसंधान सहायक से पूछना चाहिए। इसके अलावा, ग्रूप संस्थागत समीक्षा बोर्ड (आईआरबी) से संपर्क कर सकते/सकती हैं, जो अनुसंधान परियोजनाओं में प्रतिभागी के संरक्षण से संबंधित है। आप आईआरबी कार्यालय तक: सोमवार से शुक्रवार, सुबह 8:00 बजे से

शाम 5:00 तक (415) 476-1814 पर फोन करके या UCSF मानव अनुसंधान संरक्षण कार्यक्रम, Box 1288,
490 Illinois Street, Floor 6, San Francisco, CA 94143 को लिख कर या irb@ucsf.edu को ईमेल
करके पहुंच सकते/सकती हैं।

अनुवादों पर जानकारी के लिए (415) 476-1814 पर फोन करें या irb@ucsf.edu पर ईमेल करें।